



मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रेफिकिंग)

क्या आपको मदद
की ज़रूरत है?

न्यूज़ीलैंड पुलिस और इमिग्रेशन
न्यूज़ीलैंड आपकी मदद करेंगे।

पुलिस को **105** नंबर पर फोन करें या ऑनलाइन
105.police.govt.nz पर रिपोर्ट करें।

आपातस्थिति में सदैव **111** पर फोन करें।

आप गुमनाम रूप से **0800 555 111** नंबर पर या
ऑनलाइन Crime Stoppers (क्राइम स्टापर्स) को
www.crimestoppers-nz.org/report पर रिपोर्ट
कर सकते हैं।

■ क्या आप तस्करी की स्थिति में हैं?

अपने आप से पूछें:

- › क्या किसी ने आपके पासपोर्ट या पैसे पर कब्जा कर रखा है?
- › क्या आपके दरवाजे या खिड़कियों पर ताले लगे हैं जो आपको बाहर जाने से रोकते हैं?
- › क्या आपको खाने / सोने / बाथरूम जाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत है?
- › क्या आपको खरीदारी करने और लोगों से मिलने-जुलने के लिए कोई छुट्टी नहीं दी जाती?
- › क्या आपको बहुत कम या बिल्कुल भी पैसे (वेतन) नहीं दिए जा रहे हैं?
- › क्या आपको कर्ज चुकाने के लिए काम करने को मजबूर किया जा रहा है?
- › यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो क्या आपको या आपके परिवार को (हिंसा, जेल-समय या निर्वासन की) धमकी दी गई है?
- › क्या आपने यात्रा की है या आपको ऐसे काम के लिए भर्ती किया गया है जो अवैध है, आपको किए गए वायदे से कम भुगतान किया गया है, या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया है?

यदि आपने इनमें से किसी भी सवाल का हाँ में जवाब दिया है, तो न्यूज़ीलैंड पुलिस से मदद लें।

■ इसकी रिपोर्ट करें

लोगों की तस्करी मानवाधिकारों का उल्लंघन है – इसे अनदेखा न करें

किसी भी व्यक्ति को मदद की जरूरत हो सकती है अगर वे:

- › अपने काम की जगह पर रहते हैं (दरवाजों के बाहर तालों पर ध्यान दें)
- › बयानों और कहानियों का 'पूर्वाभ्यास' किया गया है
- › पैसे या किसी भी प्रकार की आईडी नहीं है (पासपोर्ट को रोक कर रखा गया है)
- › ज्यादा घंटों तक काम करते हैं और / या कोई छुट्टी नहीं मिलती है
- › एक 'एस्कॉर्ट' (नजर रखने वाले) या 'अनुवादक' आपके लिए बोलता है और आप पर नजर रखता है
- › आपको अपने नियोक्ता और अधिकारियों से असामान्य रूप से डर लगता है
- › उपेक्षित मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य (संभावित मादक द्रव्यों के सेवन या स्वयं को नुकसान पहुंचाने) के लक्षण दिखाई देते हैं

पुलिस को **105** नंबर पर फोन करें या ऑनलाइन

105.police.govt.nz पर रिपोर्ट करें।

आपातस्थिति में सदैव **111** पर फोन करें।

आप गुमनाम रूप से **0800 555 111** नंबर पर या

ऑनलाइन Crime Stoppers (क्राइम स्टॉपर्स) को

www.crimestoppers-nz.org/report पर

रिपोर्ट कर सकते हैं